

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 40] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 7—अक्टूबर 13, 2017 (आश्विन 15, 1939)

No. 40] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 7—OCTOBER 13, 2017 (ASVINA 15, 1939)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 25 सितम्बर 2017

सं. डीपी/पर्स.-I/2017/2249/03/69/2012—के.अ.ब्यूरो के प्रशासनिक नोट तथा रिट याचिका (सीआरएल) 120/2012 एवं 463/2012 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित अनुमति एवं डीओपीटी के पत्र संख्या 202/01/2017-एवीडी.-II दिनांक 23.06.2017 के अनुसरण में श्री विधि कुमार बिरदी, भा.पु.से. (जम्मू एवं कश्मीर : 2003), पुलिस उपमहानिरीक्षक, के.अ.ब्यूरो, बैंक प्रतिभूति तथा घोटाला प्रकोष्ठ, नई दिल्ली की सेवायें उनके अनुमोदित कार्यकाल के पूर्ण होने पर दिनांक 02.09.2017 (पंचम वर्ष) के अपराहन से जम्मू एवं कश्मीर सरकार को वापस की जाती हैं।

डी. पी. सिंह
प्रशासनिक अधिकारी (कार्मिक)

खान मंत्रालय

(भारतीय खान ब्यूरो)

नागपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2017

सं. ए: 19011/525/2010 स्था. ए.—विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर डॉ. ए. एन. मुर्ती, क्षेत्रीय खनन भूविज्ञानी को भारतीय खान ब्यूरो, बेंगलूर में दिनांक 13.09.2017 (पूर्वाह्न) से अधिक्षण खनन भूविज्ञानी के पद पर पदोन्नति की जाती है ।

संजय कुमार सिंह
प्रशासनिक अधिकारी
कृते महानियंत्रक

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(कंपनी रजिस्ट्रार का कार्यालय)

एलएलपी अधिनियम, 2008 और निम्नलिखित एलएलपी के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 29 सितम्बर 2017

सं. आरओसी/दिल्ली/एलएलपी/एफ.24/पब्लि./5908—एलएलपी नियम 2009 के नियम 37 की उपनियम (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है की निम्न एलएलपी के नाम, रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त एलएलपी विघटित कर दी गई है ।

क्र. सं.	एलएलपीन	एसआरएन	एलएलपी नाम
1	AAB-6845	M03117991	24एच- वर्ल्डवाइड हेल्थ सर्विसेज एलएलपी
2	AAE-0062	M03174331	ए जी यू मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एलएलपी
3	AAC-5630	M03461191	ए ए किंजल फैशन एलएलपी
4	AAA-2515	M02848679	एबिडोस कैपिटल एलएलपी
5	AAF-9876	M03499118	आदिल एंड उपनीत डिज़ाइन्स एलएलपी
6	AAE-0332	M02899466	एगमसीस टेक्नोलॉजीज एलएलपी
7	AAB-8818	M02883684	एके सिंह मार्केटिंग इंडिया एलएलपी
8	AAE-5793	M03299732	अल्फाटेक्स डिस्ट्रीब्यूशंस एलएलपी
9	AAB-6169	M00772251	ऍमको स्टील इंडस्ट्रीज एलएलपी
10	AAA-8687	M00779801	एमेली क्लोथिंग एलएलपी
11	AAF-6699	M03364346	अमिललोयां सोल्यूशन्स एलएलपी
12	AAA-5710	M01819101	अमरेव सॉफ्टवेयर एलएलपी
13	AAD-7894	M03530615	आमविष सिक्योरिटीज एलएलपी
14	AAD-0950	M02870582	ऍनगस एक्सपोर्ट्स एलएलपी
15	AAA-5437	M01961325	अक्वामिस्ट बेवरेजेज एलएलपी
16	AAC-0655	M03041514	अरगिल ऐडवाइसर्स एलएलपी
17	AAF-5328	M03008174	अरिहंत ऑटोमोबाइल्स एलएलपी
18	AAD-9926	M03109519	आरक लिविंग्स एलएलपी
19	AAE-7965	M04468757	अशोक एक्वा क्राफ्ट एलएलपी

20	AAA-3427	M03057494	अश्व डिज़ाइन्स एलएलपी
21	AAF-4135	M03356672	अश्वनी अलॉयज एंड स्टील्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप
22	AAB-9367	M01142496	अतुल्य प्रोजेक्ट्स एलएलपी
23	AAA-2986	M02942159	एवीके एडवाइजरी एलएलपी
24	AAE-5537	M02854388	अव्यग्राहा कंसल्टेंट्स एलएलपी
25	AAD-2207	M03133998	एक्सकैलेन्ट स्ट्रेटेजीज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप
26	AAA-5541	M03598513	बैंगलोर बेकर'स एलएलपी
27	AAB-5432	M04307336	बशीर शर्मा इंटरप्राइजेज एलएलपी
28	AAD-3698	M02798478	बिरॉन्ड वेकेशनस एलएलपी
29	AAA-7044	M00573808	बिज़लिटिक्स एक्सपर्ट सिस्टम्स एलएलपी
30	AAB-5619	M02907533	ब्रू डिज़ाइन कंसल्टिंग एलएलपी
31	AAA-7526	M02767408	बिज़नेस एंड इन्वेस्टमेंट ग्लोबल फोरम इंडिया एलएलपी
32	AAD-5134	M01808369	करना हार्ट केयर सेण्टर एलएलपी
33	AAC-1057	M02146686	कस्बा मीडिया इंडिया एलएलपी
34	AAE-0821	M03084258	क्लाउड वन इंटरप्राइजेज एलएलपी
35	AAB-9010	M02756963	कोम्मेर्सेलेबस सॉफ्टवेयर एलएलपी
36	AAB-6254	M03303138	कुकफ्रेश इंटरप्राइजेज एलएलपी
37	AAA-7384	M02900124	कॉक्स & किंग्स वेंचर्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप
38	AAD-3486	M02604874	डी लक्स लाइफस्टाइल एलएलपी
39	AAB-3606	M03152964	देविशां ग्लोबल एलएलपी
40	AAE-7923	M04524435	डिजिबीटस सोल्यूशन्स एलएलपी
41	AAD-1322	M03032638	डिजिटल डेवलपमेंट रिसर्च एंड आर्चिविंग एलएलपी
42	AAA-0228	M01886811	डाइम पाठक मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एलएलपी
43	AAB-2943	M00334128	डिसा टूल्स एलएलपी
44	AAF-2681	M03292505	डी एन एस डायग्नोस्टिक्स एलएलपी
45	AAB-8523	M03158664	दम स्टेप फूड & बेवरीज सर्विसेज एलएलपी
46	AAB-7437	M04218723	इंगेजमेंट मंत्रास एलएलपी
47	AAA-7660	M00680157	इ-ऐज एक्सपोजेसिग्न एलएलपी
48	AAE-8026	M03099942	ईसीपिक रिटेल एलएलपी
49	AAB-3255	M00782029	एक-आम फर्टीलिज़र्स एलएलपी
50	AAB-3815	M04199428	एक्वेशन्स ऑनलाइन एलएलपी
51	AAB-6074	L01746569	एक्ससीडो आर्चीटेक्ट्स एंड प्लानर्स एलएलपी
52	AAE-3083	M02671386	फैब हॉस्पिटैलिटी एलएलपी

53	AAB-1840	M01639236	फर्स्ट स्टेप इवेंट्स एलएलपी
54	AAF-9836	M03284593	फ़्लोरा एग्री-ट्रेड एलएलपी
55	AAB-2740	M03855087	फ्लॉरिश फैक्टर्स एलएलपी
56	AAD-4337	M02104206	फ्रीकी हॉलिडे एलएलपी
57	AAD-9519	M03034170	फ्रंटलाइन कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव्स एलएलपी
58	AAE-3354	M04290771	फ्रूट 2 डोर एलएलपी
59	AAE-0599	M03034386	एफ़ एस एल एजुकेशन सर्विसेज एलएलपी
60	AAF-5326	M03276482	गरिमा इंटरप्राइजेज एलएलपी
61	AAF-9608	M03276706	गरिमा शेयर्स एलएलपी
62	AAB-6026	M03126026	जीएलजीएम मार्केटिंग एलएलपी
63	AAD-2892	M02880250	ग्लूबॉम्ब मीडिया एलएलपी
64	AAC-6343	M02655421	जी एम टी हॉस्पिटैलिटी एलएलपी
65	AAE-8678	M03099363	गो इफ़ेक्टिवो ऐडवर्टिसमेन्ट एलएलपी
66	AAB-9809	M01835552	गोल्ड लीफ कैटरिंग सर्विसेज एलएलपी
67	AAB-5598	M03076833	गोविल टेक्नोलॉजीज एलएलपी
68	AAC-5491	M04253662	गीन क्यूब इंटरप्राइजेज एलएलपी
69	AAC-2187	M00720631	ग्रीन रेंज वेंचर्स एलएलपी
70	AAC-2226	M00720649	ग्रीनटेक ह्यूड्रोकोलॉइड्स एलएलपी
71	AAB-9032	M02704286	जीएस ब्रेविस कंसल्टिंग एलएलपी
72	AAB-2228	M01519792	गुडविक मैट्रिमोनियल सर्विसेज एलएलपी
73	AAA-7376	M02728210	हरिदयाल ट्रेड & कंसल्टेंसी एलएलपी
74	AAF-6065	M03323458	एचबी पोलीकोट्स एलएलपी
75	AAC-9665	M03291317	हेल्पिंग हैंड फैसिलिटीज सर्विसेज एलएलपी
76	AAC-7851	M00631051	हरमेस ऑनलाइन मार्केटप्लेस एलएलपी
77	AAA-0577	M03091261	हाई क्वालिटी (HQ) बिज़नेस एडवाइजरी एलएलपी
78	AAD-3783	M00681320	हितचक्ष ट्रेडर्स एलएलपी
79	AAB-2317	M00825588	आई एम डिज़ाइन एलएलपी
80	AAC-7126	M02598951	आई-फूड हॉस्पिटैलिटी एलएलपी
81	AAE-1376	M03192739	इमैजिआ इंफोटेक एलएलपी
82	AAC-6760	M02937829	इंडिया रूट्स एस्टेट्स एलएलपी
83	AAC-6828	M02595072	इन्नोसेंसिअल कंसल्टिंग सर्विसेज एलएलपी
84	AAB-2534	M02898864	इनोवेटिव हायरिंग सोल्यूशन्स एलएलपी
85	AAA-0664	M02994762	इन्स्पिरिव एडवाइजरी सर्विसेज एलएलपी

86	AAB-3406	M03245131	इंस्ट्रुमेंटल सर्विसेज बिज़नेस इंफोटेक एलएलपी
87	AAA-0011	M00206128	इशितहार एडवरटाइजिंग एलएलपी
88	AAF-2166	M03306727	जेक्ट इंजीनियर्स एलएलपी
89	AAB-3310	M02742658	करतार सिंह इन्वेस्टमेंट एलएलपी
90	AAF-6602	M03255791	केएलटी क्रिएशन्स एलएलपी
91	AAB-5394	M02826162	के एस प्रीटी एंड विटी एलएलपी
92	AAC-8552	M03134863	कुक्कड कू फूड्स एलएलपी
93	AAA-4845	M02800464	ला सांते स्पार्क एंटरप्राइज एलएलपी
94	AAB-6762	M01995380	लॉस फ्रूट्स फूडवर्क्स एलएलपी
95	AAA-8888	M02021822	लेवल प्लानर्स इंटरनेशनल सर्विसेज एलएलपी
96	AAF-5081	M04389698	लोविका जेवेलर्स एलएलपी
97	AAC-2350	M03090784	ऍम एंड एन हेल्थइस्ट मेदवेन्चर्स एलएलपी
98	AAF-7688	M03276862	मधुर बिल्डर्स एलएलपी
99	AAE-7386	M03318987	मागरस इ-वैचर्स एलएलपी
100	AAD-6252	M01959352	मनोजय यूटिलिटी सर्विसेज एलएलपी
101	AAB-3104	M00435479	मनूवर कंसल्टिंग एलएलपी
102	AAC-1364	M03303435	मस्साप (दिल्ली) मैनेजमेंट सर्विसेज एलएलपी
103	AAE-3948	M04520698	मूव सॉफ्टवेयर लैब्स एलएलपी
104	AAD-5458	M00851345	मैक्सिमस फूड्स एंड कैटरर्स एलएलपी
105	AAC-9576	M00869594	मैक्सिमस ट्रिप्पेर्स एलएलपी
106	AAF-7691	M03276870	मयूर इन्वेस्टर्स एंड कंसल्टेंट्स एलएलपी
107	AAF-5324	M03007986	मयूरस रोड लाइन्स एलएलपी
108	AAA-0209	M02069151	ऍम भगत होमलैंड सिक्योरिटी सोल्यूशन्स एलएलपी
109	AAE-0464	M02871887	मीलमी फूड & नुट्रिएंट्स सर्विसेज एलएलपी
110	AAC-0970	M01292515	मेडबेरी हेअल्थकेयर लैब्स एलएलपी
111	AAE-3096	M04440640	माइंडस्पार्क अस्सेसमेंट्स एलएलपी
112	AAA-8389	M02664365	माउंट फुजि इंफ्राकं एलएलपी
113	AAE-4056	M02974178	नम्म फूड्स एलएलपी
114	AAA-3441	M03109246	नारद संस सोल्यूशन्स एलएलपी
115	AAC-7713	M00343640	नवोदय फार्म्स एलएलपी
116	AAE-4506	M04312757	ऍनडसी फार्म्स एलएलपी
117	AAB-3402	M00622407	निओस्टार अलायन्स एलएलपी
118	AAF-1015	M04287496	पि.वि. एंड एसोसिएट्स एलएलपी

119	AAE-2119	M03262649	पार्क रॉयल बैंक्वेट्स एलएलपी
120	AAE-5280	M03377090	पट्टोनागे बीपिओ सर्विसेज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी
121	AAD-3245	M02851913	पिकेए एंटरप्राइज एलएलपी
122	AAD-2243	M00810507	प्लेनेट डिजिटल ट्रेनिंग सर्विसेज एलएलपी
123	AAG-3795	M04447652	पीएनए फार्म्स एलएलपी
124	AAA-1819	M00763797	पीएनए लीगल कंसल्टेंट्स एलएलपी
125	AAE-5080	M03386232	प्रभु रियलटेक एलएलपी
126	AAB-3299	M02983302	प्रदिक मेडिकल सर्विसेज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप
127	AAD-2736	M00569988	पिआरबीएस इंफ्राटेक एलएलपी
128	AAD-6842	M03048634	पल्स हाई-टेक सोल्यूशन्स एलएलपी
129	AAC-6925	M00816942	आर. ए. स्टेशनरी एलएलपी
130	AAE-2327	M03058724	आर.डी साइकोलोजिस्ट & काउंसलिंग एसोसिएट एलएलपी
131	AAE-1383	M02113397	रेडियो लोजिस्टिक्स सर्विसेज एलएलपी
132	AAF-5170	M03496932	राय हैंडीक्राफ्ट्स एलएलपी
133	AAC-0073	M03106572	रंग खुशी आइडियाज & इवेंट्स एलएलपी
134	AAF-4360	M04356317	रेड रैबिट एंटरटेनमेंट एलएलपी
135	AAA-5454	M01926039	रेवारीवाले & एसोसिएट्स एलएलपी
136	AAB-7450	M03308699	ऋषिराज ऑनलाइन सुपरमार्केट एलएलपी
137	AAE-7592	M03575875	रुद्रशक्ति ट्रेडर्स एलएलपी
138	AAB-7365	M00680553	एस के इंडिया फैशन बुटीक एलएलपी
139	AAB-2517	M00764985	साई योग रियल्टी एलएलपी
140	AAE-3939	M03461084	सजग रॉक एलएलपी
141	AAD-5592	M04432878	सकुरा रॉयल टूर्स एलएलपी
142	AAD-2142	M03202561	सामर्थ्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एलएलपी
143	AAA-7289	M00771402	संदीप त्रिपाठी वेंचर्स एलएलपी
144	AAA-0056	M04292330	संतोष & पूजा कंसल्टिंग एलएलपी
145	AAE-1730	M03312170	सत्कार्य हैल्थकारे एलएलपी
146	AAC-7770	M02971083	सव बिल्डकॉन एलएलपी
147	AAE-1187	M02848893	सेव्दोप्लस मोबिलिटी एलएलपी
148	AAB-2129	M01156587	शिव सुन्दर टेलीकॉम एलएलपी
149	AAD-1765	M03130432	शोभा सिंह इंटरनेट सर्विसेज एलएलपी
150	AAE-2542	M03561859	सिअब एक्सिम इंटरनेशनल एलएलपी
151	AAB-1101	M03617784	एसजेए कंसल्टिंग एलएलपी

152	AAC-9372	M03306461	स्काईवार्ड फ्रेट सर्विसेज एलएलपी
153	AAG-0032	M03586906	सोलोमन एडवआईसर्स एलएलपी
154	AAF-9809	M03586872	सोलोमन कॉर्पोरेट सर्विसेज एलएलपी
155	AAF-9805	M03589736	सोलोमन एस्टेट्स एलएलपी
156	AAF-9808	M03589959	सोलोमन इंफ्रास्ट्रक्चर एलएलपी
157	AAF-9813	M03591864	सोलोमन आउटसोर्सिंग सर्विसेज एलएलपी
158	AAG-0031	M03590254	सोलोमन प्रोजेक्ट्स एलएलपी
159	AAC-3212	M03477338	सोमनी सलीप एसोसिएट्स एलएलपी
160	AAB-9742	M03033636	स्पेसडेल इंजीनियरिंग सर्विसेज एलएलपी
161	AAF-3142	M03579497	स्पेअरहेड टेक्नोलॉजी एलएलपी
162	AAB-1185	M02722270	एस एस ए इंटरप्राइजेज एलएलपी
163	AAA-2009	M02740561	एस एस ए इंफोटेक एलएलपी
164	AAB-6437	M01854298	स्टार मैथ कंसलटेंट एलएलपी
165	AAF-9816	M03589975	स्टेलर कमर्सिअल्स एलएलपी
166	AAE-6552	M03158326	सुकर्मा इंटरप्राइजेज एलएलपी
167	AAD-7320	M02126910	सनस्टोन मोबाइल ऐप्स एलएलपी
168	AAD-3803	M03182425	सुपरक्लीन ग्रीन एनर्जी एलएलपी
169	AAC-2393	M03110921	सुवर्णानिवास कंस्ट्रक्शंस एलएलपी
170	AAC-1436	M03212800	स्वरनिवास डेवेलपर्स एलएलपी
171	AAB-2341	M03092285	तक इंटरप्राइजेज LLP एलएलपी
172	AAB-8062	M03404662	तालेंटमिन्स एचआर सर्विसेज इंडिया एलएलपी
173	AAA-3752	M02668184	तारागढ़ ग्रीन बिल्डकॉन एलएलपी
174	AAC-5723	M02670024	तेनजिकु एंटरप्राइज एलएलपी
175	AAF-6083	M03330867	टीएन फुटकेयर एलएलपी
176	AAE-3544	M04376638	ट्रैकटो टेक्नोलॉजीज एलएलपी
177	AAC-4317	M02809481	ट्रेड सी एक्सपोर्ट एलएलपी
178	AAB-8933	M02755049	ट्रिग्नो फोनीकोड एलएलपी
179	AAC-5193	M03189222	वी एंड पी वेब वेंचर्स एलएलपी
180	AAE-8142	M02168458	वालकीरी ट्रेडिंग एलएलपी
181	AAE-2490	M01738541	वराह वेगीफल सप्लायर्स एलएलपी
182	AAB-9233	M01839562	विकल्प हॉस्पिटैलिटी एलएलपी
183	AAC-8203	M00689190	विकास मेटलॉयस एंड स्टील्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी
184	AAB-5400	M03222577	विंडी हॉस्पिटैलिटी इंटरनेशनल एलएलपी

185	AAF-6378	M03323151	वीएनएस बूकटारडस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी
186	AAC-6533	M01052943	वीआरकेएसएस मैनेजमेंट सर्विसेज एलएलपी
187	AAE-9232	M03056819	वांडरर्स ऑन व्हील्स राइड वेंचर एलएलपी
188	AAC-1203	M00541243	वायरलेस मोबी ट्रैक सोल्यूशन्स एलएलपी
189	AAA-7129	M04506663	यूपीक लीडरशिप सोल्यूशन्स एलएलपी
190	AAC-1864	M03011889	वायेआरवी ऍपॉर्चुनिटी एलएलपी
191	AAB-4911	M00783407	ज़फ़िरो कुकिंग स्कूल एंड किचन एलएलपी
192	AAC-3675	M02256303	जमींदार एंड संस डेवेलपर्स एलएलपी
193	AAC-6657	M02733392	जनतामा कंसल्टिंग एलएलपी
194	AAC-6072	M02640225	ज़ापारेल फैशंस एलएलपी
195	AAC-7441	M00874768	ज़ेफायर रियल टेक एलएलपी
196	AAD-5903	M03313640	ज़िओन ओवरसीज एलएलपी
197	AAA-3647	M01565688	जुला मैनेजमेंट सर्विसेज एलएलपी

राकेश तिवारी
कम्पनी रजिस्ट्रार
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

एल.एल.पी. अधिनियम, 2008 तथा निम्नलिखित एल.एल.पी. के मामले में

मुंबई-400002, दिनांक 21 सितम्बर 2017

सं. आरओसी/एलएलपी 3(37)/184—लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप नियम, 2009 के नियम 37 के उपनियम 3 के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित एल एल पी के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गये हैं और उक्त एल एल पी विघटीत हो गई हैं :—

क्र. सं.	एल एल पी के नाम	एल एल पी पिन	एस आर एन
1	डीपी एक्वा क्रोमेटोग्राफी एलएलपी	AAB-6376	L03331998
2	प्राइसे इंटरप्राइजेज एलएलपी	AAC-0947	L03410958
3	टिअरा जेम्स एलएलपी	AAB-2966	M00671305
4	हैचेम लोजिस्टिक्स एंड मल्टीट्रेड एलएलपी	AAA-7144	M00803189
5	सिल्वर लीफ कांसेप्ट होम्स एलएलपी	AAA-9214	M00816553
6	एव्हरशाइम राइट डेवेलपर्स एलएलपी	AAB-8150	M02510717
7	क्रॉप साइंस एडव्हायज़र्स एलएलपी	AAA-2262	M02968659
8	मेडिक्स कंसल्टेंसी सर्विसेज एलएलपी	AAC-5171	M03012135
9	इकोमॅक्स टेक्नोलॉजीज एलएलपी	AAD-2286	M03008703
10	जेपी इंफ्रा एंड एसपीएच कंस्ट्रक्शंस एलएलपी	AAD-1490	M03022670
11	जेएमपी सफीरे एडव्हायज़र्स एलएलपी	AAE-7925	M03025301

क्र. सं.	एल एल पी के नाम	एल एल पी पिन	एस आर एन
12	अमर मर्केटाइल एलएलपी	AAD-0585	M03056157
13	अशद बिल्डर्स एलएलपी	AAC-8651	M03086733
14	द एरोबॉटिक्स लैब एलएलपी	AAE-3146	M03088903
15	टुल एंटरप्राइज एलएलपी	AAD-9881	M03109394
16	त्रिधारा ट्रेडकॉम एलएलपी	AAA-6652	M03109840
17	सोनाली प्लांटेशन एंड इन्वेस्टमेंट एलएलपी	AAB-1979	M03115375
18	माधवी प्लांटेशन एंड इन्वेस्टमेंट एलएलपी	AAB-1980	M03115334
19	रोजएन्टीक्स जेम्स एलएलपी	AAA-2776	M03120789
20	सुमेर वाइब्रेंट होम्स एलएलपी	AAA-7521	M03120748
21	लखानी क्रिएशन्स एलएलपी	AAD-2413	M03148764
22	मेस्टा डेवेलपर्स एलएलपी	AAB-3090	M03130804
23	एसपीएस वेंचर्स एलएलपी	AAB-3957	M03130630
24	एरा रेहाब एंड केयर सेण्टर एलएलपी	AAD-4409	M03139813
25	ग्रीन फारेस्ट एग्रो एलएलपी	AAA-5418	M03172467
26	जेएंडजे हाउस ऑफ़ डायमंड्स एलएलपी	AAF-6391	M03185535
27	अकोला रिटेलर्स फोरम एलएलपी	AAD-2392	M03191517
28	टर्क्यु सर्विसेज एलएलपी	AAB-3388	M03189677
29	माय पेट शॉप ऑनलाइन सेल्स एंड मार्केटिंग एलएलपी	AAD-1788	M03191236
30	टाइटन पोलिसोल एलएलपी	AAD-2017	M03197696
31	लॉजिक एक्सप्रेस सर्विसेज एलएलपी	AAF-3302	M03195914
32	ट्रेनर्जी हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज एलएलपी	AAB-9982	M03203668
33	स्पोर्ट्स गुल्ली वेंचर्स एलएलपी	AAD-8956	M03205705
34	इंडीपेंडेंट मीडिया एलएलपी	AAD-9120	M03229929
35	श्रीपंक प्रोडक्ट्स एलएलपी	AAA-7484	M03226578
36	इंडिबू बेवरेजेज एलएलपी	AAE-8093	M03235322
37	इक्विसाइट जर्निज एलएलपी	AAD-6243	M03244043
38	रीवलोट स्पोर्ट्स नेटवर्किंग एलएलपी	AAD-7259	M03247095
39	प्लस इनोवेटिव मार्केटिंग एलएलपी	AAE-2086	M03257920
40	नाइस मेडीचेक एलएलपी	AAB-3265	M03264462
41	कॉन्फिअर इंटरनेशनल एलएलपी	AAF-4849	M03265204
42	खिमजी विश्राम एंड संस कमोडिटीज एलएलपी	AAB-9550	M03270311
43	कारनेशन फर्म्स एलएलपी	AAA-5508	M03270345

क्र. सं.	एल एल पी के नाम	एल एल पी पिन	एस आर एन
44	गोल्डस्ट्रीट इंटरप्राइजेज एलएलपी	AAA-3338	M03271202
45	ब्लैक क्रो वेंचर्स एलएलपी	AAA-6838	M03278611
46	टॉजेंट कॉन्सेप्ट्स सोल्यूशन्स एलएलपी	AAF-3273	M03282431
47	पनाचे डिज़ाइन एंड मर्चेंडाइजिंग एलएलपी	AAB-6847	M03289444
48	मिमा मैनेजमेंट कंसल्टिंग एलएलपी	AAB-3690	M03291929
49	स्वयोग कारपोरेशन एलएलपी	AAC-8031	M03293677
50	गो इंफोसिस्टम्स एलएलपी	AAE-0912	M03294030
51	पुतमश इंजीनियरिंग इंडिया एलएलपी	AAD-4667	M03294972
52	समता बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एलएलपी	AAC-3119	M03299138
53	अल्मा फार्च्यून इन्वेस्टमेंट एडव्हायज़र्स एलएलपी	AAC-0370	M03298213
54	कासिया कमर्सिअल्स एलएलपी	AAA-5356	M03316916
55	इक्वीसाइट कमोडिटीज एलएलपी	AAB-5781	M03348141
56	सकिस्ट वेंचर्स एलएलपी	AAE-6459	M03351376
57	एलवे वेंचर्स एलएलपी	AAE-9012	M03360633
58	इक्वल डेवलर्स एलएलपी	AAB-7177	M03365152
59	टॉप शिफ्ट ऑटोमोटिव एलएलपी	AAE-6911	M03383304
60	भारत स्पेसेस एलएलपी	AAB-0696	M03428497
61	पोर्च हबिटट्स एलएलपी	AAB-5650	M03425741
62	कबाना रियल्टी एलएलपी	AAB-6430	M03433745
63	एमराल्ड एडिफिक एलएलपी	AAB-5784	M03433372
64	आरवीके किङ्ज क्रिएशन्स एलएलपी	AAE-8695	M03455136
65	पूजा इंग्रज डेवलपमेंट्स एलएलपी	AAE-5635	M03472230
66	टोटल फाइनेंस वेबवर्ल्ड एलएलपी	AAC-3501	M03477866
67	भारत रेजिडेंस एलएलपी	AAB-0786	M03491370
68	भारत सुपरस्ट्रक्चर्स एलएलपी	AAB-0640	M03491677
69	पीआरसीएल रियल्टी एलएलपी	AAA-4898	M03508793
70	एवी मोशन पिक्चर्स एलएलपी	AAC-9901	M03583747
71	इटरनल सिरेमिक्स एलएलपी	AAC-4532	M03583259
72	एवेरेस्ट जेम्स एलएलपी	AAC-6573	M03670395
73	सेज फूड्स एलएलपी	AAA-6104	M03722972
74	लक्ष्मी एग्रीकल्चर एलएलपी	AAE-9210	M03723111

एस पी कुमार
कंपनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

लिमिटेड लाईबिलिटी पार्टनरशिप अधिनियम 2008 तथा निम्नलिखित एल.एल.पी. के मामले में

कोलकाता, दिनांक 15 सितम्बर 2017

सं. क0र0/प0व0/एल.एल.पी-75/2014—उपरोक्त विषय पर भारत के राजपत्र में अधिसूचित हेतु एल.एल.पी. नियम 2009 का नियम 37(3) के साथ पठित लिमिटेड लाईबिलिटी पार्टनरशिप अधिनियम 2008 की धारा 75 के अन्तर्गत निम्नलिखित 06 एल.एल.पी. के नाम आज के दिन से रजिस्टर से काट दिए हैं तथा वे एल.एल.पी. विघटित कर दी गई हैं ।

क्र. सं.	एलएलपीआईएन	एलएलपी का नाम
1	AAB-7076	पॉलसंस सोल्युशंस एलएलपी
2	AAA-5197	घूर्णी प्रोजेक्ट्स एलएलपी
3	AAG-0734	सोलस्टेट सोल्युशंस एलएलपी
4	AAB-6207	अभरभ सोल्युशंस एलएलपी
5	AAA-2506	अनादिआ बेबीप्रोडक्ट्स एलएलपी
6	AAC-3222	कलकत्ता फैब्रीकेटर्स एलएलपी

सौरभ गौतम
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
पश्चिम बंगाल

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110003, the 25th September 2017

No. DP/Pers.I/2017/2249/03/69/2012—In pursuance of Administrative note of CBI and leave granted by Hon'ble Supreme Court of India in its Order dated 21.08.2017 passed in WP(Crl.) 120/2012 & 463/2012 and DoPT letter No. 202/01/2017-AVD.II dated 23.6.2017, services of Shri Vidhi Kumar Birdi, IPS (J&K:2003), Deputy Inspector General of Police, CBI, BS&FC, New Delhi is placed back at the disposal of Government of Jammu and Kashmir with effect from the afternoon of 02.09.2017 (5th year), on completion of his approved tenure.

D. P. SINGH
Admn. Officer (Pers.)

MINISTRY OF MINES

(INDIAN BUREAU OF MINES)

Nagpur, the 22nd September 2017

No. A-19011/525/2010-Estt.A—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee, Dr. A. N. Murthy, Regional Mining Geologist is promoted to the post of Superintending Mining Geologist in Indian Bureau of Mines, Bangalore w.e.f 13.09.2017 (F.N.).

SANJAY KUMAR SINGH
Administrative Officer
For Controller General

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

(OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES)

In the matter of LLP's 2008 and of the following LLP's

New Delhi-110019, the 29th September 2017

No. Roc/Delhi/Llp/F-24/Publ./5908—Notice is hereby given pursuant to rule 37(3) of the LLP rules, 2009 that the name of the following LLP(S) have this day been struck off from the register and the said LLP(S) are dissolved :—

Sr. No.	LLPIN	SRN	LLP Name
1	AAB-6845	M03117991	24H- WORLDWIDE HEALTH SERVICES LLP
2	AAE-0062	M03174331	A G U MANAGEMENT CONSULTANCY LLP
3	AAC-5630	M03461191	AA KINJAL FASHION LLP
4	AAA-2515	M02848679	ABYDOS CAPITAL LLP
5	AAF-9876	M03499118	ADIL AND UPNEET DESIGNS LLP
6	AAE-0332	M02899466	AGUMSYS TECHNOLOGIES LLP
7	AAB-8818	M02883684	AK SINGH MARKETING INDIA LLP
8	AAE-5793	M03299732	ALPHATEX DISTRIBUTIONS LLP
9	AAB-6169	M00772251	AMCO STEEL INDUSTRIES LLP
10	AAA-8687	M00779801	AMELI CLOTHING LLP
11	AAF-6699	M03364346	AMILLOYAN SOLUTIONS LLP
12	AAA-5710	M01819101	AMREV SOFTWARE LLP
13	AAD-7894	M03530615	AMVISH SECURITIES LLP
14	AAD-0950	M02870582	ANGUS EXPORTS LLP

Sr. No.	LLPIN	SRN	LLP Name
15	AAA-5437	M01961325	AQUAMIST BEVERAGES LLP
16	AAC-0655	M03041514	ARGIL ADVISORS LLP
17	AAF-5328	M03008174	ARIHANT AUTOMOBILES LLP
18	AAD-9926	M03109519	ARK LIVINGS LLP
19	AAE-7965	M04468757	ASHOK AQUA CRAFT LLP
20	AAA-3427	M03057494	ASHWA DESIGNS LLP
21	AAF-4135	M03356672	ASHWANI ALLOYS AND STEELS LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
22	AAB-9367	M01142496	ATULYA PROJECTS LLP
23	AAA-2986	M02942159	AVK ADVISORY LLP
24	AAE-5537	M02854388	AVYAGRAHA CONSULTANTS LLP
25	AAD-2207	M03133998	AXCELLENT STRATEGIES LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
26	AAA-5541	M03598513	BANGALORE BAKER'S LLP
27	AAB-5432	M04307336	BASHEER SHARMA ENTERPRISES LLP
28	AAD-3698	M02798478	BEYOND VACATIONS LLP
29	AAA-7044	M00573808	BIZLYTICS EXPERT SYSTEMS LLP
30	AAB-5619	M02907533	BREW DESIGN CONSULTING LLP
31	AAA-7526	M02767408	BUSINESS & INVESTMENT GLOBAL FORUM INDIA LLP
32	AAD-5134	M01808369	CARNA HEART CARE CENTER LLP
33	AAC-1057	M02146686	CASBAA MEDIA INDIA LLP
34	AAE-0821	M03084258	CLOUD ONE ENTERPRISES LLP
35	AAB-9010	M02756963	COMMERCELABS SOFTWARE LLP
36	AAB-6254	M03303138	COOKFRESH ENTERPRISES LLP
37	AAA-7384	M02900124	COX & KINGS VENTURES LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
38	AAD-3486	M02604874	DE LUXE LIFESTYLE LLP
39	AAB-3606	M03152964	DEVISHA GLOBAL LLP
40	AAE-7923	M04524435	DIGIBYTES SOLUTIONS LLP
41	AAD-1322	M03032638	DIGITAL DEVELOPMENT RESEARCH AND ARCHIVING LLP
42	AAA-0228	M01886811	DIME PATHAK MANAGEMENT CONSULTANCY LLP
43	AAB-2943	M00334128	DISA TOURS LLP
44	AAF-2681	M03292505	DNS DIAGNOSTICS LLP
45	AAB-8523	M03158664	DUM STEP FOOD & BEVERAGE SERVICES LLP
46	AAB-7437	M04218723	E NGAGEMENT MANTRAS LLP
47	AAA-7660	M00680157	E-AGE EXPODESIGN LLP
48	AAE-8026	M03099942	EASYPICK RETAIL LLP
49	AAB-3255	M00782029	EK-AM FERTILIZERS LLP
50	AAB-3815	M04199428	EQUATIONS ONLINE LLP
51	AAB-6074	L01746569	EXCEEDO ARCHITECTS AND PLANNERS LLP
52	AAE-3083	M02671386	FAB HOSPITALITY LLP

Sr. No.	LLPIN	SRN	LLP Name
53	AAB-1840	M01639236	FIRST STEP EVENTS LLP
54	AAF-9836	M03284593	FLORA AGRI-TRADE LLP
55	AAB-2740	M03855087	FLOURISH FACTORS LLP
56	AAD-4337	M02104206	FREAKY HOLIDAY LLP
57	AAD-9519	M03034170	FRONTLINE COMMODITIES AND DERIVATIVES LLP
58	AAE-3354	M04290771	FRUIT 2 DOOR LLP
59	AAE-0599	M03034386	FSL EDUCATION SERVICES LLP
60	AAF-5326	M03276482	GARIMA ENTERPRISES LLP
61	AAF-9608	M03276706	GARIMA SHARES LLP
62	AAB-6026	M03126026	GLGM MARKETING LLP
63	AAD-2892	M02880250	GLUEBOMB MEDIA LLP
64	AAC-6343	M02655421	GMT HOSPITALITY LLP
65	AAE-8678	M03099363	GO EFFECTIVO ADVERTISEMENT LLP
66	AAB-9809	M01835552	GOLD LEAF CATERING SERVICES LLP
67	AAB-5598	M03076833	GOVIL TECHNOLOGIES LLP
68	AAC-5491	M04253662	GREEN CUBE ENTERPRISES LLP
69	AAC-2187	M00720631	GREEN RANGE VENTURES LLP
70	AAC-2226	M00720649	GREENTECH HYDROCOLLOIDS LLP
71	AAB-9032	M02704286	GS BREVIS CONSULTING LLP
72	AAB-2228	M01519792	GUDDVICK MATRIMONIAL SERVICES LLP
73	AAA-7376	M02728210	HARIDAYAL TRADE & CONSULTANCY LLP
74	AAF-6065	M03323458	HB POLYCOATS LLP
75	AAC-9665	M03291317	HELPING HAND FACILITIES SERVICES LLP
76	AAC-7851	M00631051	HERMES ONLINE MARKETPLACE LLP
77	AAA-0577	M03091261	HIGH QUALITY (HQ) BUSINESS ADVISORY LLP
78	AAD-3783	M00681320	HITECHAKSH TRADERS LLP
79	AAB-2317	M00825588	I M DSIGN LLP
80	AAC-7126	M02598951	I-FOOD HOSPITALITY LLP
81	AAE-1376	M03192739	IMMENSIA INFOTECH LLP
82	AAC-6760	M02937829	INDIA ROOTS ESTATES LLP
83	AAC-6828	M02595072	INNOSENTIAL CONSULTING SERVICES LLP
84	AAB-2534	M02898864	INNOVATIVE HIRING SOLUTIONS LLP
85	AAA-0664	M02994762	INSPIREHIVE ADVISORY SERVICES LLP
86	AAB-3406	M03245131	INSTRUMENTAL SERVICES BUSINESS INFOTECHLLP
87	AAA-0011	M00206128	ISHTIHAAR ADVERTISING LLP
88	AAF-2166	M03306727	JACT ENGINEERS LLP
89	AAB-3310	M02742658	KARTAR SINGH INVESTMENT LLP
90	AAF-6602	M03255791	KLT CREATIONS LLP

Sr. No.	LLPIN	SRN	LLP Name
91	AAB-5394	M02826162	KS PRETTY AND WITTY LLP
92	AAC-8552	M03134863	KUKKAD KOO FOODS LLP
93	AAA-4845	M02800464	LA SANTE SPARK ENTERPRISE LLP
94	AAB-6762	M01995380	LAS FRUTAS FOODWORKS LLP
95	AAA-8888	M02021822	LEVEL PLANNERS INTERNATIONAL SERVICES LLP
96	AAF-5081	M04389698	LOVIKA JEWELLERS LLP
97	AAC-2350	M03090784	M & N HELTHEIST MEDVENTURES LLP
98	AAF-7688	M03276862	MADHUR BUILDERS LLP
99	AAE-7386	M03318987	MAGRAS E-VENTURES LLP
100	AAD-6252	M01959352	MANOAJAY UTILITY SERVICES LLP
101	AAB-3104	M00435479	MANOOVAR CONSULTING LLP
102	AAC-1364	M03303435	MASSAP (DELHI) MANAGEMENT SERVICES LLP
103	AAE-3948	M04520698	MAUV SOFTWARE LABS LLP
104	AAD-5458	M00851345	MAXIMUS FOODS AND CATERERS LLP
105	AAC-9576	M00869594	MAXIMUS TRIPPERS LLP
106	AAF-7691	M03276870	MAYUR INVESTORS AND CONSULTANTS LLP
107	AAF-5324	M03007986	MAYURS ROAD LINES LLP
108	AAA-0209	M02069151	MBHAGAT HOMELAND SECURITY SOLUTIONS LLP
109	AAE-0464	M02871887	MEALME FOOD & NUTRIENTS SERVICES LLP
110	AAC-0970	M01292515	MEDBERRY HEALTHCARE LABS LLP
111	AAE-3096	M04440640	MINDSPARK ASSESSMENTS LLP
112	AAA-8389	M02664365	MOUNT FUJI INFRACON LLP
113	AAE-4056	M02974178	NAMM FOODS LLP
114	AAA-3441	M03109246	NARAD SMS SOLUTIONS LLP
115	AAC-7713	M00343640	NAVODAYAM FARMS LLP
116	AAE-4506	M04312757	NEC FARMS LLP
117	AAB-3402	M00622407	NEOSTAR ALLIANCE LLP
118	AAF-1015	M04287496	P.V. AND ASSOCIATES LLP
119	AAE-2119	M03262649	PARK ROYAL BANQUETS LLP
120	AAE-5280	M03377090	PATRONAGE BPO SERVICES LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
121	AAD-3245	M02851913	PKA ENTERPRISE LLP
122	AAD-2243	M00810507	PLANET DIGITAL TRAINING SERVICES LLP
123	AAG-3795	M04447652	PNA FARMS LLP
124	AAA-1819	M00763797	PNJ LEGAL CONSULTANTS LLP
125	AAE-5080	M03386232	PRABHU REALTECH LLP
126	AAB-3299	M02983302	PRADIK MEDICAL SERVICES LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
127	AAD-2736	M00569988	PRBS INFRATECH LLP
128	AAD-6842	M03048634	PULSE HI-TECH SOLUTIONS LLP

Sr. No.	LLPIN	SRN	LLP Name
129	AAC-6925	M00816942	R.A. STATIONERY LLP
130	AAE-2327	M03058724	R.D PSYCHOLOGIST & COUNSELLING ASSOCIATE LLP
131	AAE-1383	M02113397	RADIO LOGISTICS SERVICES LLP
132	AAF-5170	M03496932	RAI HANDICRAFTS LLP
133	AAC-0073	M03106572	RANG KHUSHI IDEAS & EVENTS LLP
134	AAF-4360	M04356317	RED RABBIT ENTERTAINMENT LLP
135	AAA-5454	M01926039	REWARIWALE & ASSOCIATES LLP
136	AAB-7450	M03308699	RISHIRAJ ONLINE SUPERMARKET LLP
137	AAE-7592	M03575875	RUDRASHAKTI TRADERS LLP
138	AAB-7365	M00680553	S K INDIA FASHION BOUTIQUE LLP
139	AAB-2517	M00764985	SAI YOG REALTY LLP
140	AAE-3939	M03461084	SAJAG REALCON LLP
141	AAD-5592	M04432878	SAKURA ROYAL TOURS LLP
142	AAD-2142	M03202561	SAMARTHYA EDUCATIONAL INSTITUTION LLP
143	AAA-7289	M00771402	SANDEEP TRIPATHY VENTURES LLP
144	AAA-0056	M04292330	SANTOSH & POOJA CONSULTING LLP
145	AAE-1730	M03312170	SATKARYA HEALTHCARE LLP
146	AAC-7770	M02971083	SAV BUILDCON LLP
147	AAE-1187	M02848893	SEVA60PLUS MOBILITY LLP
148	AAB-2129	M01156587	SHIV SUNDAR TELECOM LLP
149	AAD-1765	M03130432	SHOBHA SINGH INTERNET SERVICES LLP
150	AAE-2542	M03561859	SIAB EXIM INTERNATIONAL LLP
151	AAB-1101	M03617784	SJA CONSULTING LLP
152	AAC-9372	M03306461	SKYWARD FREIGHT SERVICES LLP
153	AAG-0032	M03586906	SOLOMON ADVISORS LLP
154	AAF-9809	M03586872	SOLOMON CORPORATE SERVICES LLP
155	AAF-9805	M03589736	SOLOMON ESTATES LLP
156	AAF-9808	M03589959	SOLOMON INFRASTRUCTURE LLP
157	AAF-9813	M03591864	SOLOMON OUTSOURCING SERVICES LLP
158	AAG-0031	M03590254	SOLOMON PROJECTS LLP
159	AAC-3212	M03477338	SOMNI SLEEP ASSOCIATES LLP
160	AAB-9742	M03033636	SPACEDEL ENGINEERING SERVICES LLP
161	AAF-3142	M03579497	SPEARHEAD TECHNOLOGY LLP
162	AAB-1185	M02722270	SSA ENTERPRISES LLP
163	AAA-2009	M02740561	SSA INFOTECH LLP
164	AAB-6437	M01854298	STAR MATH CONSULTANT LLP
165	AAF-9816	M03589975	STELLAR COMMERCIALS LLP
166	AAE-6552	M03158326	SUKARMA ENTERPRISES LLP
167	AAD-7320	M02126910	SUNSTONE MOBILE APPS LLP

Sr. No.	LLPIN	SRN	LLP Name
168	AAD-3803	M03182425	SUPERCLEAN GREEN ENERGY LLP
169	AAC-2393	M03110921	SUARNANIVAAS CONSTRUCTIONS LLP
170	AAC-1436	M03212800	SWARNIVAAS DEVELOPERS LLP
171	AAB-2341	M03092285	TAK ENTERPRISES LLP
172	AAB-8062	M03404662	TALENTMINES HR SERVICES INDIA LLP
173	AAA-3752	M02668184	TARAGARH GREEN BUILDCON LLP
174	AAC-5723	M02670024	TENJIKU ENTERPRISE LLP
175	AAF-6083	M03330867	TN FOOTCARE LLP
176	AAE-3544	M04376638	TRACTO TECHNOLOGIES LLP
177	AAC-4317	M02809481	TRADESEA XPORT LLP
178	AAB-8933	M02755049	TRIGNO PHONECODE LLP
179	AAC-5193	M03189222	V&P WEB VENTURES LLP
180	AAE-8142	M02168458	VALKYRIE TRADING LLP
181	AAE-2490	M01738541	VARAHA VEGIFAL SUPPLIERS LLP
182	AAB-9233	M01839562	VIKALP HOSPITALITY LLP
183	AAC-8203	M00689190	VIKAS METALLOYS AND STEELS LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
184	AAB-5400	M03222577	VINDI HOSPITALITY INTERNATIONAL LLP
185	AAF-6378	M03323151	VNS BOOKTARDS LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
186	AAC-6533	M01052943	VRKSS MANAGEMENT SERVICES LLP
187	AAE-9232	M03056819	WANDERERS ON WHEELS RIDEVENTURE LLP
188	AAC-1203	M00541243	WIRELESS MOBI TRACK SOLUTIONS LLP
189	AAA-7129	M04506663	YOUPEAK LEADERSHIP SOLUTIONS LLP
190	AAC-1864	M03011889	YRV APPORTUNITY LLP
191	AAB-4911	M00783407	ZAFFIRO COOKING SCHOOL & KITCHEN LLP
192	AAC-3675	M02256303	ZAMINDAR & SONS DEVELOPERS LLP
193	AAC-6657	M02733392	ZANTAMA CONSULTING LLP
194	AAC-6072	M02640225	ZAPAREL FASHIONS LLP
195	AAC-7441	M00874768	ZEPHYR REALTECH LLP
196	AAD-5903	M03313640	ZION OVERSEAS LLP
197	AAA-3647	M01565688	ZULA MANAGEMENT SERVICES LLP

RAKESH TIWARI
Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the LLP Act, 2008 and of the following LLP's

Mumbai-400002, the 21st September 2017

No. ROC/LLP3(37)/184—Notice is hereby given pursuant to Rule 3 of 37 of Limited Liability Partnership Rules, 2009 that the name of the following Limited Liability Partnerships have this day been struck off from the register and the said Limited Liability Partnerships are dissolved :—

Sr. No.	NAME OF LLP'S	LLP PIN	SRN
1	DP AQUA CHROMATOGRAPHY LLP	AAB-6376	L03331998
2	PRAISE ENTERPRISES LLP	AAC-0947	L03410958
3	TIARA GEMS LLP	AAB-2966	M00671305
4	HAZCHEM LOGISTICS & MULTITRADE LLP	AAA-7144	M00803189
5	SILVER LEAF CONCEPT HOMES LLP	AAA-9214	M00816553
6	EVERSHINE RITE DEVELOPERS LLP	AAB-8150	M02510717
7	CROP SCIENCE ADVISORS LLP	AAA-2262	M02968659
8	MEDIX CONSULTANCY SERVICES LLP	AAC-5171	M03012135
9	ECOMAX TECHNOLOGIES LLP	AAD-2286	M03008703
10	JP INFRA & SPH CONSTRUCTIONS LLP	AAD-1490	M03022670
11	JMP SAPPHIRE ADVISORS LLP	AAE-7925	M03025301
12	AMAR MERCANTILE LLP	AAD-0585	M03056157
13	ASHAD BUILDERS LLP	AAC-8651	M03086733
14	THE AEROBOTICS LAB LLP	AAE-3146	M03088903
15	TUILE ENTERPRISE LLP	AAD-9881	M03109394
16	TRIDHARA TRADECOM LLP	AAA-6652	M03109840
17	SONALI PLANTATION AND INVESTMENT LLP	AAB-1979	M03115375
18	MADHAVI PLANTATION AND INVESTMENT LLP	AAB-1980	M03115334
19	ROSENTIQUES GEMS LLP	AAA-2776	M03120789
20	SUMER VIBRANT HOMES LLP	AAA-7521	M03120748
21	LAKHANI CREATIONS LLP	AAD-2413	M03148764
22	MESTA DEVELOPERS LLP	AAB-3090	M03130804
23	SPS VENTURES LLP	AAB-3957	M03130630
24	ERA REHAB & CARE CENTER LLP	AAD-4409	M03139813
25	GREEN FOREST AGRO LLP	AAA-5418	M03172467
26	J&J HOUSE OF DIAMONDS LLP	AAF-6391	M03185535
27	AKOLA RETAILERS FORUM LLP	AAD-2392	M03191517
28	TORQUE SERVICES LLP	AAB-3388	M03189677
29	MY PET SHOP ONLINE SALES AND MARKETING LLP	AAD-1788	M03191236
30	TITAN POLYSOL LLP	AAD-2017	M03197696
31	LOGIC EXPRESS SERVICES LLP	AAF-3302	M03195914
32	TRAINERGY HOSPITALITY SERVICES LLP	AAB-9982	M03203668
33	SPORTS GULLY VENTURES LLP	AAD-8956	M03205705
34	INDEPENDENT MEDIA LLP	AAD-9120	M03229929
35	SHRIPACK PRODUCTS LLP	AAA-7484	M03226578
36	INDIBREW BEVERAGES LLP	AAE-8093	M03235322
37	EXQUISITE JOURNEYS LLP	AAD-6243	M03244043

Sr. No.	NAME OF LLP'S	LLP PIN	SRN
38	RIVALOT SPORTS NETWORKING LLP	AAD-7259	M03247095
39	PLUS INNOVATIVE MARKETING LLP	AAE-2086	M03257920
40	NICE MEDICHEK LLP	AAB-3265	M03264462
41	CONFIAR INTERNATIONAL LLP	AAF-4849	M03265204
42	KHIMJI VISRAM & SONS COMMODITIES LLP	AAB-9550	M03270311
43	CARNATION FARMS LLP	AAA-5508	M03270345
44	GOLDSTREET ENTERPRISES LLP	AAA-3338	M03271202
45	BLACK CROW VENTURES LLP	AAA-6838	M03278611
46	TANGENT CONCEPTS SOLUTIONS LLP	AAF-3273	M03282431
47	PANACHE DESIGN & MERCHANDISING LLP	AAB-6847	M03289444
48	MIMA MANAGEMENT CONSULTING LLP	AAB-3690	M03291929
49	SWAYOG CORPORATION LLP	AAC-8031	M03293677
50	GRO INFOSYSTEMS LLP	AAE-0912	M03294030
51	PUTMASH ENGINEERING INDIA LLP	AAD-4667	M03294972
52	SAMTA BUILDERS & DEVELOPERS LLP	AAC-3119	M03299138
53	ALMA FORTUNE INVESTMENT ADVISORS LLP	AAC-0370	M03298213
54	CASSIA COMMERCIALS LLP	AAA-5356	M03316916
55	EXQUISITE COMMODITIES LLP	AAB-5781	M03348141
56	SUNKIST VENTURES LLP	AAE-6459	M03351376
57	ELEVE VENTURES LLP	AAE-9012	M03360633
58	EQUAL DWELLERS LLP	AAB-7177	M03365152
59	TOP SHIFT AUTOMOTIVE LLP	AAE-6911	M03383304
60	BHARAT SPACES LLP	AAB-0696	M03428497
61	PORCH HABITATS LLP	AAB-5650	M03425741
62	CABANA REALTY LLP	AAB-6430	M03433745
63	EMERALD EDIFICE LLP	AAB-5784	M03433372
64	RVK KIDZ CREATIONS LLP	AAE-8695	M03455136
65	POOJA INFRA DEVELOPMENTS LLP	AAE-5635	M03472230
66	TOTAL FINANCE WEBWORLD LLP	AAC-3501	M03477866
67	BHARAT RESIDENCE LLP	AAB-0786	M03491370
68	BHARAT SUPERSTRUCTURES LLP	AAB-0640	M03491677
69	PRCL REALTY LLP	AAA-4898	M03508793
70	AV MOTION PICTURES LLP	AAC-9901	M03583747
71	ETERNAL CERAMICS LLP	AAC-4532	M03583259
72	EVEREST GEMS LLP	AAC-6573	M03670395
73	SAGE FOODS LLP	AAA-6104	M03722972
74	LAXMI AGRICULTURE LLP	AAE-9210	M03723111

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Limited Liability Partnership Act, 2008 and of the following LLPs

Kolkata, the 15th September 2017

No. ROC/WB/LLP-75/2014—Notice is hereby given pursuant to under section 75 of the Limited Liability Partnership Act, 2008 read with Rule 37(3) of the LLP Rule, 2009 that the names of the following 06 LLP have on this day been struck off from the Register and the LLPs are dissolved :—

Sl. No.	LLPIN	Name of the LLP
1	AAB-7076	PAULSAN SOLUTIONS LLP
2	AAA-5197	GHURNI PROJECTS LLP
3	AAG-0734	SOLSTAT SOLUTIONS LLP
4	AAB-6207	ABHARAV SOLUTIONS LLP
5	AAA-2506	ANADYA BABYPRODUCTS LLP
6	AAC-3222	CALCUTTA FABRICATORS LLP

SAURABH GAUTAM
Asstt. Registrar of Companies
West Bengal

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2017
UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2017

www.dop.nic.in

DOPGIPF—[PART III—SEC.1]

LAZAR
SAGAYA
RAJ

Digitally signed by
LAZAR SAGAYA
RAJ
Date: 2017.10.07
12:35:36 +05'30'